



Uploaded on BSE Limited
Website: <http://listing.bseindia.com>

Ho-425-S

March 20, 2019

Manager – Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Registered Office: Floor 25,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sir,

(Scrip Code : 533033, Scrip Id: ISGEC)
Subject: Public Advertisement published in Newspaper

1. In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attach herewith public advertisement regarding Notice to Shareholders of the Company in compliance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 (1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The copies of the same in English daily news paper (Business Standard) and Hindi daily newspaper (Hari Bhoomi) at registered office Yamunanagar are attached for your record.
3. Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Isgtec Heavy Engineering Limited


(S. K. Khorana)
Executive Director and Company Secretary

Encl: As above

PVR, Inox play up the big screen romance


As exhibitors woo brands with more flexible terms of engagement and better technology, in-cinema advertising gathers pace

URVI MALWANIA
Mumbai, 18 March

The siren call of digital media had led many to believe that the era of in-cinema advertising was well and truly over. However, two reports launched in the course of the past few weeks—the FICCI-EY report on media and entertainment and the Pitch Madison report—indicate that reports of the demise of in-cinema advertising may have been highly exaggerated.

In-cinema advertising is growing at 17 per cent a year according to the FICCI-EY report while the two reports peg the total revenue earned from advertising by the cinema exhibition industry at ₹750-800 crore in 2018. The Pitch Madison report puts the growth of the segment in 2018 at 37 per cent but, clarifies that the high rates are a result of under-reporting the segment in earlier years. In-cinema advertising was just one percent of the industry's total advertising expenditure in 2018 (television is still the biggest guzzler), but the point analysts and exhibitors make is that the big screen is increasingly finding favour with a wide spectrum of brands.

From mobile handsets and apps to candy and dia-



Kissanpur, complete with (fake) tomato plants, and green astroturf to promote its tomato ketchup.

Besides increased promotional opportunities, the advertising experience has also become smoother, thanks to digitisation of cinema screens (90 per cent screens) and the emergence of multiplexes. The new format improves the quality of ads while allowing advertisers greater flexibility as to when they want to release a campaign. In the past, there were several restrictions which led to ads being released with a time lag in

with the core proposition. On the other hand, relevant associations to drive brand fit can be tied to specific occasions such as Valentine Day, Film Festival, etc," said Gautam Dutta, CEO, PVR.

Multiplex screens are bigger beneficiaries than single screen theatres. "Thanks to their pan India presence and wide audience base, multiplex chains have a high revenue realisation from advertisements while single screen cinemas have a limited reach and poor consumer targeting, leading to lesser advertisement revenues," says the Pitch Madison report.

a lot of rigour while offering them integrated solutions," said Alok Tandon, CEO, INOX Leisure. Inox says that it has notched up 38 per cent year-on-year growth in Q3 2018 in advertising revenues.

Multiplex owners say they see merit in partnering with brands. It enhances the experience around the brand and adds a surprise element to the theatre experience, thereby benefiting both exhibitor and advertiser. For instance on Valentine's Day Mondelez ran a brand activation for Cadbury's at PVR theatres in Mumbai. As part of the initiative, couples

THE ODISHA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Government of Odisha Undertaking)
95, Satyanagar, Bhubaneswar-7

TENDER NOTICE FOR TRANSPORTATION OF KAMCO MAKE POWER TILLERS AND REAPERS FROM KERALA TO THE ODISHA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD. AT DIFFERENT DESTINATION OF ODISHA

The Odisha Agro Industries Corporation Ltd. (OAIC) invites sealed offers / tenders in prescribed format from bonafide, experienced and reputed Agencies / Truck owners for transportation of approximately 400 nos of Power Tillers / Reapers from Athani (Emakulam Dist. of Kerala State) to The Odisha Agro Industries Corporation Ltd at different destinations of Odisha for a period of one year, i.e 2019-2020.

| Cost of Tender Schedule Excl. of GST | Cost of EMD | Sale of Tender Schedule from-to | Last date for submission of Tender | Date of opening of offers |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| Rs.4000/- | 75,000/- | 18.03.2019, 10.30 A.M. to 27.03.2019, 3.00 P.M. | 27.03.2019 up to 3.00 P.M. | 27.03.2019 at 4.00 P.M |

Tender schedule may be obtained in person from the registered office of OAIC between 10.30 am to 3 pm on all working days on payment of cost of Tender document in the shape of cash/Demand Draft drawn in favour of "Odisha Agro Industries Corporation Ltd" payable at Bhubaneswar. The Tender document can also be downloaded from our website www.orissaagro.com and submitted duly enclosing the demand drafts towards the cost of tender document and EMD separately. The downloaded Tender document received without demand draft towards cost of Tender document will be rejected. The OAIC reserves the right to accept and/or reject any/all of the offers without assigning any reason thereof.

Sd/-
Managing Director
Odisha Agro Industries Corporation Ltd.

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED
CIN : L23423HR1933PLC000097
Registered Office : Radaur Road, Yamunanagar - 135001, Haryana.
Ph. : 01732-661061/62,
Fax No. : 01732- 250991,
Email Id : roynr@isgect.com,
Website: www.isgect.com

Notice
Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 (1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a record date has been fixed as March 29, 2019 for the purpose of Sub-division of Shares of the Company. For ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED sd/- (S.K. Khorana) Executive Director & Dated: 18.03.2019 Company Secretary

RBL BANK
Administrative Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur
Branch Office: Unit 14-15, DLF Capitol Point, Babarpur

Whereas, The undersigned being the Authorised Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2013 with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Guarantor(s)/Mortgagor(s) to repay the amount me The borrower/Guarantor(s) having failed to repay; and the public in general that the undersigned bear property described herein below in exercise of power read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Act, 2013.

| Name and Address of the Borrower/Guarantors/ Mortgagors | Loan Account No. |
|--|------------------------|
| M/s Meenakshi International Through Its Proprietor Mrs. Meenakshi Jain D-2, Ground Floor, Kh No 2 Sewa Dham Mandoli Road, Mandoli, New Delhi 110093 Also At : Meenakshi Jain Flat No - Parshavnath Cghs Appartments, Plot No-50, IP, Patparganj, New Delhi. Mr Romil Jain Flat No - Parshavnath Cghs Appartments, Plot No-50, IP, Patparganj, New Delhi. Mr. Rajendra Kumar Flat No - 409, Parshavnath Cghs Appartments, No-50, IP Extn Patparganj, New Delhi. | 809000329 809001405 |

पीएम नरेंद्र मोदी परिकर के परिवार को ढांडस बंधाते हुए



परिकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अनिल शाह, केंद्रीय मंत्री गडकरी



अपने सीएम का आखिरी दर्शन करने को हर कोई आतुर दिखा

गमगीन माहौल उनके समर्थकों और देश की तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

भाषा ► पणजी

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर के अंतिम दर्शन के लिए राजधानी पणजी की सड़कों पर हर कोई आतुर दिखा। परिकर का अगनाशय की बीमारी के कारण रविवार शाम को निधन हो गया था। परिकर का पार्थिव शरीर यहां भाजपा कार्यालय में लाया गया ताकि पार्टी कार्यकर्ता उन्हें अंतिम विदाई दे सकें। तिरंगे में लिपटा परिकर का पार्थिव शरीर जब भाजपा कार्यालय में लाया गया तो वहां माहौल गमगीन हो गया। जहां लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देश के कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी।



फादर जेफिरिनो डिस्जूा पहुंचे

गोवा और दमन के आर्कबिशप फादर फिलिप नेरी फराओ और डाइआसिसन सोसाइटी ऑफ गोवा के सचिव फादर जेफिरिनो डिस्जूा भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। डाइडी बोंहरा समुदाय के सदस्य भी अकादमी के बाहर कतार में लगे रहे। गोवा की प्रदेश इकाई ने आयोजन स्थल पर बड़ा सा होलैंड लगाया है जिसमें परिकर की एक तस्वीर है। इस तस्वीर में वह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मापुसा और पणजी सहित अधिकतर बाजार सुबह से ही बंद थे। परिकर की अंतिम यात्रा सोमवार शाम चार बजे शुरू हुई।

आईआईटी-बॉम्बे में शोकसभा

मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बॉम्बे) ने अपने पूर्व छात्र एवं गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर परिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को एक शोकसभा का आयोजन किया। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह शोकसभा संस्थान के पी सी सखेनो उमगागर में आयोजित की गई। अगनाशय के फैसले से पीड़ित परिकर का रविवार की शाम को निधन हो गया था। परिकर ने 2017 में इस संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था।



पुरी। मनोहर परिकर को रेत पर आकृति बनाकर श्रद्धांजलि देते हुए।

भारत - मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे

भाषा ► माले

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को मालदीव के गृह मंत्री इमरान अब्दुल्ला से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा की। सुषमा सोमवार को राष्ट्रपति सोलिह ने की मुलाकात की। सुषमा को इस यात्रा के दौरान उनके साथ विदेश सचिव विजय गोखले और कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मालदीव में नयी सरकार के



विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मुलाकात की

कार्यभार संभालने के बाद राजनीतिक स्तर पर भारत की ओर से यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में मालदीव की यात्रा की थी।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करें भारत- गिनी: कोविंद

गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफाना से मिले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद



ओर से जारी बयान के अनुसार कोविंद ने विश्वास जताया कि गिनी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। कोविंद ने कहा कि भारत-गिनी द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 90 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि भारत तथा गिनी को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए और मजबूती से काम करना चाहिए। गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफाना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में कोविंद से मुलाकात की। कोविंद ने गिनी के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हालिया उच्चस्तरीय यात्रा से भारत-गिनी द्विपक्षीय संबंधों को एक नई रफ्तार मिलेगी। राष्ट्रपति भवन की

कांगों में ट्रेन पटरी से उतरी, 32 की मौत

दिल्ली। डीआर कांगों के कासाई प्रांत में रविवार को एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे हैं। एक जिला अधिकारी ने एएफपी को बताया कि घायलों में से 18 की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

नीदरलैंड में गोलीबारी तीन की मौत, कई घायल

उत्रेक्ता। नीदरलैंड के उत्रेक्ता शहर में एक बंदूकधारी ने एक ट्राम में तीन लोगों की हत्या कर दी और नौ अन्य को जख्मी कर दिया। इसके बाद आरोपी को तलाश शुरू हो गई। भारी हथियारों से लैस अधिकारियों ने खोजी कुलों के साथ घटनास्थल के नजदीक एक इमारत को घेर लिया है। आतंकी अलट जारी किया है।

तेजाब हमला बर्बर और हृदयहीन अपराध शीर्ष अदालत ने कहा अपराधी किसी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं

भाषा ► नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि तेजाब से हमला एक 'बर्बर और हृदयहीन अपराध' है जिसके लिये किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। शीर्ष अदालत ने करीब 15 साल पहले 2004 में 19 वर्षीय लड़की पर तेजाब फेंकने के अपराध में पांच साल जेल में गुजारने वाले दो दोषियों को आदेश दिया कि वे पीड़ित लड़की को डेढ़ डेढ़ लाख रूपए का अतिरिक्त मुआवजा भी दें। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के तहत तेजाब हमले की पीड़ित को मुआवजा दे। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, 'निश्चित



हिमाचल प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिया, तेजाब हमले की पीड़ित को मुआवजा दे

ही, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में प्रतिवादियों (दोनों दोषियों) ने पीड़ित के साथ बर्बर और हृदयहीन अपराध किया और इसलिए उनके प्रति नरमी सोचने के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं है।' पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध के मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं की जा सकती है। यह न्यायालय इस स्थिति

नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी

लंदन। लंदन की एक अदालत ने दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीरव मोदी के एक मामले में नीरव को प्रत्यर्पित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध के जवाब में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया है।

हाल्ट कांटेक्टर के ठेके के लिए सूचना

| क्र.सं. | हाल्ट स्टेशन का नाम | किन स्टेशनों के बीच | खंड | जिला | |
|---------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | बड़वासनी | सोनीपत-मोहाना | हरीयाणा | जौड़-सोनीपत | सोनीपत, हरियाणा |
| 2. | जसिया | मकरौली-रुखी | उत्तर प्रदेश | रोहतक, हरियाणा | रोहतक, हरियाणा |
| 3. | हरसाना कला | सोनीपत-राधना | दिल्ली-अम्बाला | सोनीपत, हरियाणा | सोनीपत, हरियाणा |
| 4. | रुखी | जसिया-मैसवान | उत्तर प्रदेश | रोहतक-गोहाना-पानीपत | सोनीपत, हरियाणा |
| 5. | खन्दाई | बुटाना-गोहाना | उत्तर प्रदेश | गोहाना-जौड़ | सोनीपत, हरियाणा |
| 6. | दिल्ली इंड्र पुरी | बराह स्थावर-नारायणा विहार | बिहार | रिंग रेलवे, दिल्ली एरिया | दक्षिण पश्चिम, दिल्ली |
| 7. | गांव बड़ौदा | उद्याना-बरसोला | दिल्ली-फिरोजपुर | जौड़, हरियाणा | जौड़, हरियाणा |

संबंधित आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों तथा आवेदन पत्र के प्रारूप की जानकारी हेतु कृपया उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in को लॉग-इन करें। आवेदन के लिए सभी शुद्धि-पत्र, संशोधन, अंतिम तिथि में विस्तार/बढ़ोतरी, स्पष्टीकरण, इत्यादि सभी जानकारी मात्र उत्तर रेलवे की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। स. 631-CP-TC-PJ-II-2015 दिनांक: 18.03.2019 855/2015

उत्तर रेलवे

| क्र. | कार्यक्रम | दिनांक | समय | स्थान |
|------|---|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | निमग्न 35 के उपरपर (2) अधीन यथा अपेक्षित मानदण्डों की सूची का प्रदर्शन | 19-03-2019 से 24-03-2019 | प्रातः 9 बजे से सव्यं 5 बजे तक | 1. समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी गांवों की तालिका केन्द्र 2. समिति के पंजीकृत कार्यालय 3. कार्यक्षेत्र सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जौड़ 4. कार्यक्षेत्र निरीक्षक सहकारी समितियां, जुलाना |
| 2. | पैर 35 के उपरपर (4) के अधीन यथा अपेक्षित मानदण्डों की सूची के संबंधी अपेक्षों की सूची | 25-03-2019 | प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जौड़ |
| 3. | नाम निर्देशन पत्र दायर कला | 27-5-2019 | प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक | उपरोक्त सभी |
| 4. | नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा | 28-5-2019 | प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक | उपरोक्त सभी |
| 5. | योग्य उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन | 28-05-2019 | दोपहर 3 बजे | उपरोक्त सभी |
| 6. | नाम निर्देशन पत्र वापिस लेना | 30-5-2019 | प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक | उपरोक्त सभी |
| 7. | उम्मीदवारों को चुनना चिन्ह का आबंटन | 30-05-2019 | प्रातः 10 बजे से सव्यं 4 बजे तक | उपरोक्त सभी |
| 7. | निर्दिष्ट नामित रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन | 30-05-2019 | दोपहर 4 बजे से सव्यं 5 बजे तक | उपरोक्त सभी |
| 8. | मानदण्ड कक्षा, यदि आवश्यक हो तो | 16-06-2019 | प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक | राजकीय कन्या वर्यमार्थिक विद्यालय, जुलाना |

नोट: 1. सभी मानदण्डों हेतु अपनी समिति को पास कृत व प्रेषित कृत पत्र लाना आवश्यक है। 2. कुल 10 प्रबंधक कमेटी सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति, दो महिलों में निर्वाचित होंगे। यदि कुल वोटों का 10 प्रतिशत से अधिक पिछड़ वर्गों द्वारा तो कम से कम एक प्रबंधक कमेटी सदस्य पिछड़ वर्गों का चुना जाएगा। प्रवर्तन कक्षा, रिवर्निंग अधिकारी कम सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जौड़

चीन ने 13 हजार आतंकीयों को पकड़ा

एजेंसी ► पेइचिंग

चीन ने शिनजियांग में 2014 के बाद से करीब 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आतंकीवाद के तौर पर बताया गया है। इसके अलावा, उसने सैकड़ों 'आतंकीवादी गिरोहों' को खत्म किया है। यह चीन सरकार की तरफ से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है। यह रिपोर्ट शिनजियांग के परंपरागत इस्लामी इलाके में नजरबंदी कैंपों और सैन्य अत्याचारों को लेकर आलोचनाओं को काउंटर करने के लिए जारी किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के प्रयासों ने मजहबों

सैकड़ों आतंकीवादी गिरोहों को भी किया खत्म

चरमपंथ पर लगाम लगाई है लेकिन उसमें इस बात का कोई खास सबूत नहीं दिया गया है वास्तव में किस तरह के अपराध हुए हैं। चीन का सुदूर उत्तर-पश्चिमी इलाके में बाहरियों का जाना प्रतिबंधित है, इसलिए वहां की जमीनी हकीकत का अंदाज लगाना मुश्किल है। हालांकि, विदेशों में रह रहे वहां के पूर्व निवासी और एंक्टिविस्टों का कहना है कि वहां सिर्फ मुस्लिम पहचान को जाहिर करना ही दंडनीय है। उद्यम और दूसरे मुस्लिम समूहों के करीब 10 लाख लोगों को नजरबंद किए जाने को लेकर चीन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

पाक में राजनयिकों का उत्पीड़न, भारत का विरोध

नई दिल्ली। भारतीय उच्चायोग के कई अधिकारियों की 8 मार्च और 11 मार्च के बीच कथित परेशानी और उत्पीड़न की घटनाओं पर भारत ने पाकिस्तान से अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। इसी तरह की परेशानी का सामना प्रथम सचिव को भी 8 मार्च को करना पड़ा था। उच्चायोग में नौसेना के सहायक कार्यालय के बहुरंग 9 और 10 मार्च को पाक एजेंसी का कार्यालय रखते हुए पाया गया।

आईएसजीसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
CIN : L23423HR1933PLC000097
पंजीकृत कार्यालय : रावी रोड, यमुनानगर - 135001, हरियाणा
Ph. : 01732-661061/62, Fax No. : 01732-250991, Email Id : roynr@isgce.com, Website: www.isgce.com

सूचना

एन.ए.ए. द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (लिटिंग ऑफिशियर्स एवं डिस्कलोजर आदेशक) नियमों, 2015 के नियम 42 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों 2014 के नियम 10 (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसार पंजीकृत शेयरों के उप-विभाजन के प्रयोजन हेतु रिपोर्ट 29 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। कृते आईएसजीसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड हस्ता/ (ए.एम. खोना) कार्यकारी निदेशक दिनांक : 18.03.2019 एवं कम्पनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवकिल के द्वारा निम्न कृषि भूमि का तबादला प्रस्तावित है :-
SW/ISO/728
मनिके ग्राम पंचायत, बाहमनौला, एवं बिस्वेदर गाँव बाहमनौला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच ईश्वरनी, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1047 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के अनुसार, खेद नं 511मिन खाता नं 527मिन मु 30 34 किला नं 12(6-0), में से मिन उत्तर (6-12), किला 1, तादादी रकबा 6 कनाल 12 मरले सालम (0.825 एकड़) वाका रकबा मौजा बाहमनौला, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/853
मनिके ग्राम पंचायत, कुकड़ोला, एवं बिस्वेदर गाँव कुकड़ोला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच मोनिका, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1046 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व फर्द बर नं 12 के अनुसार, खेद नं 482मिन/359 खाता नं 537मिन रास्ता नं 252(0-8), 260/1(3-11) में से मिन(1-4), 260/2(1-7), 262(4-15) में से मिन उत्तर(1-11), 268(1-18) में से मिन(0-12), 272(0-12) में से मिन(0-5), 271(3-0) में से मिन(2-10), 273(0-16), 274(1-9) में से मिन(0-1), 278(4-9) में से मिन(0-15), किते 10, तादादी रकबा 9 कनाल 9 मरले का 1/2 भाग बकर 4 कनाल 14.5 मरले (0.590625 एकड़) वाका रकबा मौजा कुकड़ोला, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/854
मनिके ग्राम पंचायत, कुकड़ोला, एवं बिस्वेदर गाँव कुकड़ोला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच मोनिका, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1046 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व फर्द बर नं 11 के अनुसार, खेद नं 482मिन/359 खाता नं 537मिन रास्ता नं 252(0-8), 260/1(3-11) में से मिन(1-9), 148(4-12) में से मिन(1-2), 152(6-8) में से मिन(2-4), 155(14-16) में से मिन(1-9), 169(7-1) में से मिन(0-16), किते 5, तादादी रकबा 6 कनाल 16 मरले का 1/2 भाग बकर 3 कनाल 8 मरले (0.425 एकड़) वाका रकबा मौजा कुकड़ोला, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/855
मनिके ग्राम पंचायत, कुकड़ोला, एवं बिस्वेदर गाँव कुकड़ोला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच मोनिका, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1046 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व फर्द बर नं 10 के अनुसार, खेद नं 482मिन/359 खाता नं 537मिन रास्ता नं 252(0-8), 260/1(3-11) में से मिन(1-4), 260/2(1-7), 262(4-15) में से मिन उत्तर(1-11), 268(1-18) में से मिन(0-12), 271(3-0) में से मिन(2-10), 272(0-12) में से मिन(0-5), 273(0-16), 274(1-9) में से मिन(0-1), 278(4-9) में से मिन पूर्व(0-15), किते 10, तादादी रकबा 9 कनाल 9 मरले का 1/2 भाग बकर 4 कनाल 14.5 मरले (0.590625 एकड़) वाका रकबा मौजा कुकड़ोला, तह 8 बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है।
SW/ISO/856
मनिके ग्राम पंचायत, मुनीमपुर, बिस्वेदर गाँव मुनीमपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच सुभाष, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1044 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 के अनुसार, खेद नं 482मिन/359 खाता नं 537मिन रास्ता नं 252(0-8), 260/1(3-11) में से मिन(1-4), 260/2(1-7), 262(4-15) में से मिन उत्तर(1-11), 268(1-18) में से मिन(0-12), 271(3-0) में से मिन(2-10), 272(0-12) में से मिन(0-5), 273(0-16), 274(1-9) में से मिन(0-1), 278(4-9) में से मिन पूर्व(0-15), किते 10, तादादी रकबा 9 कनाल 9 मरले का 1/2 भाग बकर 4 कनाल 14.5 मरले (0.425 एकड़) वाका रकबा मौजा कुकड़ोला, तह 8 बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है।
SW/ISO/857
मनिके ग्राम पंचायत, मुनीमपुर, बिस्वेदर गाँव मुनीमपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1044 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 के अनुसार, खेद नं 251मिन/189मिन खाता नं 278मिन मु 7 7 किला नं 12(6-0), 19(6-12), 26(2-0), किते 3, तादादी रकबा 13 कनाल 12 मरले सालम (1.7 एकड़) वाका रकबा मौजा मुनीमपुर, तह 8 बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है।
SW/ISO/858
मनिके ग्राम पंचायत, मुनीमपुर, बिस्वेदर गाँव मुनीमपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1044 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2013-14 के अनुसार, खेद नं 251मिन/189मिन खाता नं 278मिन मु 7 7 किला नं 12(6-0), 19(6-12), 26(2-0), किते 3, तादादी रकबा 13 कनाल 12 मरले सालम (1.7 एकड़) वाका रकबा मौजा मुनीमपुर, तह 8 बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है।
SW/ISO/859
मनिके ग्राम पंचायत, सौची, बिस्वेदर गाँव सौची, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच अशोक कुमार, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1043 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2017-18 के अनुसार खेद नं 2099मिन/442मिन खाता नं 667मिन रास्ता नं 292/1(205-11), में से मिन(1-9), 295(1-12) में से मिन(0-8), 296/2(0-19), 300/1(0-17), किते 4, तादादी रकबा 3 कनाल 9 मरले सालम (0.43125 एकड़) वाका रकबा मौजा सौची, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/861
मनिके ग्राम पंचायत, सौची, बिस्वेदर गाँव सौची, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच अशोक कुमार, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1043 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2017-18 के अनुसार खेद नं 2099मिन/442मिन खाता नं 663मिन रास्ता नं 136/14(6-12), में से मिन(0-16), 136/4(1-7), 136/7(1-13), 136/8/1(0-9), 136/10(1-17), में से मिन(1-9), 136/13(4-12), में से मिन(2-6), 147/1/1(6-16), में से मिन(1-19), किते 7, तादादी रकबा 9 कनाल 19 मरले सालम (1.24375 एकड़) वाका रकबा मौजा सौची, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/862
मनिके ग्राम पंचायत, बाहमनौला, एवं बिस्वेदर गाँव बाहमनौला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच ईश्वरनी, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1047 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के अनुसार, खेद नं 511मिन/437मिन खाता नं 634मिन रास्ता नं 281(2-19), में से मिन(0-2), 282(8-12), में से मिन(0-9), 286(2-17), में से मिन(0-2), 300(0-9), 325(8-3), में से मिन(1-1), 342(6-13), में से मिन(0-6), किते 6, तादादी रकबा 2 कनाल 9 मरले सालम (0.30625 एकड़) वाका रकबा मौजा बाहमनौला, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/ISO/863
मनिके ग्राम पंचायत, बाहमनौला, एवं बिस्वेदर गाँव बाहमनौला, तहसील बादली, जिला झज्जर बजरिए सरपंच ईश्वरनी, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश नं 1047 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, में अराजी बरूहे जमाबन्दी वर्ष 2014-15 के अनुसार, खेद नं 511मिन/437मिन खाता नं 628मिन रास्ता नं 260(2-7) में से मिन(0-8), 268(3-14) में से मिन(0-19), 267(11-6) में से मिन(0-9), 268(2-1) में से मिन(0-18), 269(1-5), 276(3-12) में से मिन(0-6), किते 6, तादादी रकबा 4 कनाल 9 मरले सालम (0.53125 एकड़) वाका रकबा मौजा बाहमनौला, तह 8 बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है।
SW/BSO/226
बरूहे इन्चार्ज जमाबन्दी वर्ष 2016-17 व इंतकाल नं 1456, 1471 तकसीम, के अनुसार अराजी खेद नं 156 मिन/126, खाता नं 197 मिन, मु 40 41 किला नं 14(8-0), 15/1(1-0), 16/2(0-18), 17/1(6-8) किला 4 रकबा तादादी 16 कनाल 6 मरला का 39/640 भाग रकबा बकर 0 कनाल 19.865 मरला व खेद नं 184 मिन/152, खाता नं 233 मिन, 234 मिन, 235 मिन, 236 मिन मु 24 किला नं 18/3(2-19), 19(6-19), 22(7-4), 23(7-11) मु 30 39 किला नं 15(8-0), 16(7-7), 17/1(2-0), मु 30 नं 40 किला नं 11/1(4-14), 20/2(4-6) किला 9 रकबा तादादी 51 कनाल 0 मरला का 70/2091 भाग रकबा बकर 1 कनाल 14.46 मरला उपरोक्त दोनों खेदों का कुल रकबा 2 कनाल 14.011 मरला (राजकुमारी पत्नी रानीबी रसिद पुत्र राजगोपाल) वाका रकबा मौजा लोहट, तहसील बादली व जिला झज्जर का तादादी मेरे मुवकिल के साथ कर रही है। प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुवकिल को उपरोक्त समस्त भूमि तादादी रकबा 2 कनाल 14.011 मरला का कक्षा दिया जा रहा है।
अतः यदि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त भूमि में मुखलकाना हक, स्वामित्व, कब्जा या अन्य कोई सम्बन्ध रखता है या किसी को इस तबादलानामा पर कोई ऐराज है तो वह व्यक्ति उपरोक्त भूमि में अपने हक, दावे सम्बन्धी जरूरी दस्तावेजों या सक्षम सहित इस विनायत का प्रकाशित होने के 14 दिन के अन्दर अग्रोहस्ताक्षरित से सम्पर्क करे या मेरे, अथवा मेरे भाग प्रयोक्ता कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त भूमि में कोई दावा, हक, स्वामित्व, कब्जा या किसी प्रकार का अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रखता और मेरा मुवकिल उक्त अराजी के तबादले से सम्बन्धित अग्रिम सभी कार्यवाही करेगा।
दिनांक : 18.03.2019
राजबीर सिंह
एडवोकेट,
पंचायत भवन गुच्छाम
Mobile : 09818214284
E-mail : adv.rajbr.singh@hotmail.com